



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

18 नवम्बर 2011

संख्या 46

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	12 नवम्बर	4 नवम्बर	11 नवम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,96,937	9,98,962	10,08,875	9,914	1,11,938
संचलन में नोट	8,96,921	9,98,948	10,08,868	9,920	1,11,946
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	16	14	8	-6	-8
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	33,459	101	100	-1	-33,359
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,32,369	3,41,527	3,86,648	45,121	54,279
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,894	3,768	3,932	163	38
अन्य बैंक	15,215	16,400	17,316	916	2,101
अन्य	12,531	10,733	10,594	-139	-1,937
अन्य देयताएं	3,43,346	5,28,661	5,64,888	36,227	2,21,542
कुल देयताएं / आस्तियां	16,37,793	19,00,194	19,92,397	92,203	3,54,604
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,04,138	13,78,936	14,11,202	32,266	2,07,064
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	96,510	1,31,442	1,31,442	—	34,932
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,22,968	3,28,081	4,23,139	95,058	1,00,171
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	52,063	13,272	-38,791	13,272
राज्य सरकारें	1,940	54	749	695	-1,192
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5,742	870	4,350	3,480	-1,391
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	308	26	648	622	339
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,837	7,402	6,274	-1,127	1,437

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	11 नवम्बर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,76,706	314,339	32,895	-326	2,15,692	9,521	2,44,352	17,005	2,45,245	16,024
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,09,291	280,289	32,220	-288*	1,84,408	5,959	2,09,214	12,475	2,06,269	10,795
(ख) स्वर्ण \$	1,31,442	26,896	—	—	28,870	3,924	30,756	4,426	34,932	5,228
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	22,769	4,528	430	-24	2,368	-41	16	-550	-227	-624
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,204	2,626	245	-14	46	-321	4,366	654	4,271	625

- + आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,911 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	4 नव. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	70,027	742	-1,367	-3,715	11,530	6,463
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	23,375	-1,274	-11,944	-6,349	2,954	2,961
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	9,873	-89	920	2,749	1,281	2,975
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,54,106	35,120	3,19,960	4,46,137	6,42,165	8,41,320
		(0.6)	(7.1)	(8.6)	(15.4)	(17.5)
मांग	5,64,735	-2,157	-55,055	-76,971	63,606	-25,820
मीयादी	50,89,371	37,277	3,75,015	5,23,107	578,559	8,67,140
उधार ⁽³⁾	1,69,860	-3,227	3,073	38,519	10,667	62,509
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,55,030	-1,476	7,249	13,226	16,651	18,361
रिजर्व बैंक से उधार	870	-198	3,829	-4,161	3,871	-3,000
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,80,014	-30,176	33,106	30,506	95,887	39,941
पास में नकदी	38,488	-1,273	3,035	8,142	4,127	9,875
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,41,527	-28,903	30,070	22,364	91,760	30,066
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	58,571	530	-15,743	2,434	1,149	11,893
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	15,180	-954	-5,968	-1,426	2,302	3,480
बैंकों को अग्रिम	6,717	1,436	-5,937	-5,852	2,133	2,762
अन्य आस्तियां	70,538	469	8,196	1,465	28,395	17,879
निवेश⁽⁵⁾	17,31,638	24,989	1,03,479	2,30,019	1,20,399	2,43,407
		(1.5)	(7.5)	(15.3)	(8.8)	(16.4)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,27,472	24,859	1,04,910	2,30,324	1,23,199	2,44,167
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,166	130	-1,431	-305	-2,800	-761
बैंक ऋण	41,80,474	29,954	2,85,608	2,38,392	6,36,963	6,50,078
		(0.7)	(8.8)	(6.0)	(22.0)	(18.4)
खाद्य ऋण	77,464	8,542	5,259	13,181	11,636	23,715
खाद्येतर ऋण	41,03,011	21,413	2,80,349	2,25,211	6,25,327	6,26,363
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	40,31,256	33,223	2,83,640	2,37,249	6,11,598	6,25,458
देशी बिल - खरीदे गए	13,638	526	-1,177	194	621	2,802
भुनाए गए ⁽⁶⁾	80,262	-167	2,707	396	15,561	15,338
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,526	-914	1,537	-57	1,746	856
भुनाए गए	36,793	-2,713	-1,098	609	7,436	5,624
नकद-जमा अनुपात	6.72					
निवेश-जमा अनुपात	30.63					
ऋण-जमा अनुपात	73.94					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्विजिशन बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	5 नवम्बर	30 सितम्बर	7 अक्टूबर	14 अक्टूबर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर	4 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.92	8.27	8.00	8.27	8.26	8.40	8.47

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

(करोड ₹)

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से युरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	4 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,10,561	51,897	0.7	4,37,744	7.8	5,11,013	7.9	8,38,370	16.1	9,70,085	16.1
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,68,051	15,861	1.7	97,445	12.7	53,854	5.9	1,49,513	20.9	1,03,113	11.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,44,057	-1,950	-0.3	-55,379	-7.7	-73,602	-10.3	75,388	12.8	-18,534	-2.8
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	53,97,145	37,838	0.7	3,95,236	9.6	5,33,166	11.0	6,14,048	15.8	8,88,479	19.7
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,308	148	12.7	442	11.5	-2,405	-64.8	-579	-11.9	-2,973	-69.4
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,92,844	10,936	0.5	1,66,937	10.0	2,10,073	10.6	3,51,968	23.7	3,56,722	19.4
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	3,80,178	-14,558		51,656		-16,376		2,12,032		1,16,937	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	18,12,666	25,495	1.4	1,15,281	7.9	2,26,450	14.3	1,39,935	9.8	2,39,784	15.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	44,76,698	29,571	0.7	3,12,970	9.0	2,41,291	5.7	6,74,183	21.5	6,72,318	17.7
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,323	-555	—	244	—	-842	—	-3,468	—	-250	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,75,375	30,126	0.7	3,12,726	9.0	2,42,133	5.7	6,77,652	21.7	6,72,568	17.7
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,51,778	-46,339	-2.9	81,884	6.4	1,58,451	11.4	4,851	0.4	1,88,425	13.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से :	11,24,680	12,24,070	-57,729	-4.5	1,24,929	14.7	99,390	8.8	1,94,053	24.8	2,48,539	25.5
रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	5,30,784	-47,754	-8.3	46,437	15.4	1,62,510	44.1	-45,733	-11.6	1,82,733	52.5

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	11 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	14,31,245	55,982	4.1	1,08,675	9.4	54,363	3.9	2,68,994	27.0	1,66,883	13.2
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,22,179	9,920	1.0	1,09,525	13.7	72,520	7.6	1,57,772	21.0	1,13,105	12.4
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	4,07,896	46,201	12.8	-821	-0.2	-15,613	-3.7	1,11,119	46.2	56,418	16.1
(iii) रिजर्व बैंक के पास “अन्य” जमा	3,713	1,169	-139	-10.6	-29	-0.8	-2,543	-68.5	103	2.8	-2,640	-69.3
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	4,37,123	56,945		79,974		40,569		2,26,731		1,45,564	
	3,94,035	4,36,417	56,250		78,080		42,382		2,25,137		1,46,756	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	6,298	4,102		4,883		-1,026		2,214		-1,082	
	5,159	4,390	3,516		4,639		-770		5,808		-1,418	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,42,627	32,266	2.1	68,681	5.6	2,14,074	16.1	-5,204	-0.4	2,41,997	18.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,68,274	5,68,115	37,331	7.0	45,746	15.2	1,99,840	54.3	-43,833	-11.2	2,20,754	63.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) /कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 नवम्बर 2011	1	29	87.955	29	87.955	8.50	—	—	—	—	—	87.955	—	–87.955
9 नवम्बर 2011	2	45	1.16.160	45	1.16.160	8.50	—	—	—	—	—	1.16.160	—	–1.16.160
11 नवम्बर 2011	3	52	1.27.335	52	1.27.335	8.50	—	—	—	—	—	1.27.335	—	–1.27.335

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

'—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
9 नव.	11 नव.	4,000	54	7,205	1,800	36	4,000	1,800	—	5,800	97.85	8.8550	98,219
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
2011-2012 13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
9 नव.	11 नव.	4,000	58	6,765	—	47	4,000	—	—	4,000	95.76	8.9454	42,850
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
2 नव.	4 नव.	4,000	85	11,900	—	47	4,000	—	—	4,000	92.00	8.7432	69,166

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5 नव.	6 नव.	7 नव.	8 नव.	9 नव.	10 नव.	11 नव.	12 नव.	13 नव.	14 नव.	15 नव.	16 नव.	17 नव.	18 नव.
18 नवम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,41,417	3,41,417	3,41,237	3,61,185	3,70,551	3,71,233	3,87,030							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1		2		3	
8 अक्टूबर 2010		3,44,158		38,285		6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292		8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431		8.20-10.10
23 सितम्बर 2011		3,83,472		66,156		8.75-10.05
7 अक्टूबर 2011		3,87,313		41,694		8.80-9.85

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
31 अगस्त 2011	1,48,812	21,797	7.67-14.50
15 सितम्बर 2011	1,59,701	31,045	8.47-14.00

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बढ़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		अक्तू.	29 अक्तू. \$ #	अक्तू. #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	142.9	..	156.8	..	0.6	4.9	9.7
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	183.4	204.7	204.3	-0.1	1.0	8.6	11.4
(i) फल और सब्जियां	3.84	175.1	203.0	204.7	-1.0	5.1	23.4	16.9
ईंधन और विद्युत	14.91	148.1	169.8	170.0	—	1.0	7.9	14.8
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	129.2	..	139.1	..	0.4	2.6	7.7
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	157.7	..	167.5	..	0.2	2.2	6.2
(ii) खाद्य तेल	3.04	119.9	..	135.6	..	-0.1	5.3	13.1
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	151.4	..	154.2	..	1.9	0.3	1.8
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	125.5	..	152.7	..	2.0	8.8	21.7

\$: साप्ताहिक आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ : आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	11 नवम्बर	7 नवम्बर +	8 नवम्बर	9 नवम्बर	10 नवम्बर +	11 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	20589.09		17569.53	17362.10		17192.82
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	6194.25		5289.35	5221.05		5168.85

+ बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	30 सितम्बर 2011	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	10,070	9,823	12,907	8,972	12,550	10,022	8,613
ख) दिए गए ऋण	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	452	858	738	495	435	457	972
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585
ख) दिए गए ऋण	10,522	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	83,341	1,03,415	1,10,688	54,170	1,10,797	53,364
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,247	1,716	2,143	456	603	1,740
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	9,259	6,413	5,256	4,966	7,536	4,025
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,090	1,991	1,184	1,452	1,815	1,060
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,960	2,402	3,106	988	2,998	971
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	379	89	422	536	99	—

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
24 अक्टूबर 2011	2,326	1,488	1,112	236	212	268	7,118	7,707	1,350	2,847	1,262	60
25 अक्टूबर 2011	3,293	1,809	1,689	136	216	248	6,917	8,202	1,340	2,343	1,623	214
26 अक्टूबर 2011 +												
27 अक्टूबर 2011 +												
28 अक्टूबर 2011	3,980	1,533	889	491	421	337	6,831	5,882	554	3,383	3,219	258
बिक्री												
24 अक्टूबर 2011	3,059	1,873	656	233	346	230	6,602	7,903	1,401	2,911	1,351	64
25 अक्टूबर 2011	2,751	1,927	1,297	140	248	190	6,728	7,007	1,501	2,305	1,786	229
26 अक्टूबर 2011 +												
27 अक्टूबर 2011 +												
28 अक्टूबर 2011	3,383	2,453	1,003	495	472	297	6,451	6,610	603	3,569	3,241	227

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा । आइ एन आर = भारतीय रुपया । + बाजार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	467.49	452.54	1,326.51	294.62	1,029.07	137.78

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	11 नवम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4			
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	34,500	15,449	18,455	68,404	1,286	24,985
राज्य सरकारें	64,848	25,218	900	419	91,385	1,368	-20,104
अन्य	3,996	38,501	26,501	50,293	1,19,290	-3,227	35,891

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (11 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (12 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (11 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (12 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,06,000	3,39,000	4,37,000	2,43,419	2,53,813	3,25,414
2. भारिबैंक खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	4,888	5,372	11,575			
खरीद	4,904	13,717	78,799			

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	4 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			11 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	45	8.9111	9.0040	—	—	—
2012-13	525	8.6167	8.7013	20	8.7307	8.7501
2013-14	25	8.5518	8.5880	—	—	—
2014-15	75	8.5900	8.5900	5	8.5840	8.5840
2015-16	75	8.4915	8.6340	20	8.5864	8.6653
2016-17	432	8.7639	8.8975	30	8.8390	8.8963
2017-18	1,697	8.8044	8.9195	460	8.8412	9.0416
2018-19	6,340	8.7427	8.9064	3,630	8.8118	9.0125
2019-20	—	—	—	—	—	—
2020-21	30	8.9065	9.3916	—	—	—
2021 से आगे	46,154	8.8131	9.0271	22,517	8.7300	9.1427
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	301	8.8682	9.0581	870	8.9616	9.2312
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	112	8.4818	8.6526	60	8.4983	8.6000
ख) 15 - 91 दिन	3,821	8.3996	8.6503	1,953	8.3998	8.8672
ग) 92 - 182 दिन	792	8.5500	8.6801	530	8.6500	8.8798
घ) 183 - 364 दिन	1,449	8.6500	8.7314	485	8.6400	8.8500
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	49			—		
खरीद	50			— +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	56,087	7.00 (1)	10.25 (15)	16,582	7.50 (1)	10.25 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	64	8.00 (1)	9.25 (15)	279	8.40 (1)	8.60 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	18,005	7.50 (1)	8.50 (4)	8,279	8.35 (1)	8.66 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	6,370	7.50 (1)	8.50 (4)	4,369	8.45 (1)	8.65 (4)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	12,920	8.00 (1)	8.50 (4)	5,228	8.45 (1)	8.65 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	2,29,435	—	8.50	3,31,450	—	8.50
: रिवर्स रिपो !	15,140	—	7.50	—	—	—

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✱ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ राय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ राय।